



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 15, 2004/पौष 25, 1925

No. 64]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2004/PAUSA 25, 1925

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2004


का.आ. 80(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक, 26 शिव मंदिर राष्ट्रीय महत्व का है;

अब, इसलिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958(1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है।

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110011 द्वारा विचार किया जाएगा।

खारडा स्थित 26 शिव मन्दिरों का स्थल मानचित्र
जिला उत्तरी 24 परगना (पश्चिम बंगाल)

10 0 10 मीटर



संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र —————

अनुसूची

जिला	उप-मंडल	स्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण में लिए जाने वाले राजस्व भूखंडों की संख्या	क्षेत्र	स्वामित्व	सीमाएं	टिप्पणी
उत्तर 24 परगना	बैरकपोर	खरदा	26 शिव मंदिर	1563 (पूरा)	0.7906 एकड़ =34438.5 वर्गफुट =3199.44 वर्ग मी.	श्रीमती सुरोमा विश्वास तथा श्रीमती प्रतिमा सोम	उत्तर डी.ए.जी.नं. 1560 (सड़क)	शिव मन्दिर
				1558 (पूरा)	0.2438 एकड़ =10619.9 वर्गफुट =986.62 वर्ग मी.	श्री श्रीराधा गोबिन्द जू ठाकुर के लिए केशव चन्द्र बसु	दक्षिण डी.ए.जी.नं. 1615	
				1560 (आंशिक)	0.00895 एकड़ =172.22 वर्गफुट =16 वर्ग मी.	देवेन्द्र नाथ विश्वास, दीनेन्द्र नाथ विश्वास, द्वानक नाथ विश्वास, सुधा रानी विश्वास, अमिया-नाथ विश्वास, सुरामा विश्वास, प्रतिमा सोम, कमल कुमार बसु, मलिना बसु बिमला बसु, उमा रानी घोष, देवेन्द्र च० घोष, राय हीरेन्द्रनाथ, राय बहादुर, अमल नाथ विश्वास, अमंता नाथ विश्वास, गोनेश च. मिश्रा, अमरेन्द्र प्रसाद विश्वास, बिरजा कुमार बसु, गौरी चरण विश्वास, अतेन्द्र नाथ मिश्रा।	पूर्व डी.ए.जी.नं. 1564 पश्चिम डी.ए.जी.नं. 1662	
				कुल क्षेत्र :	1.03835 एकड़ =4202.06 वर्ग मी.			

[फा. सं. 2-43/2001-स्मा.]

रमेश चन्द्र मिश्रा, अपर महानिदेशक एवं संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION


New Delhi, the 7th January, 2004

S.O. 80(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument, 26 Shiva Temple specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto, is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any person interested in the said ancient monument which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011.

SITE PLAN OF 26 SIVA TEMPLES AT NORTH 24 PARGANAS , BARRAKPORE - KHARDAH



AREA PROPOSED FOR PROCTION - - - - -

SCHEDULE

District	Sub-Division	Locality	Name of the Monuments	Revenue Plot Numbers to be included under protection	Area	Ownership	Boundries	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
North 24 Parganas	Barrackpore	Khardah	26 Shiva Temples	1563 (Full)	0.7906 Acre = 34438.5 Sq. ft. = 3199.44 Sq. m.	Smt. Suroma Biswas and Smt. Pratima Some.	North DAG No.: 1560 (Road)	Shiva Temples
				1558 (Full)	0.2438 Acre = 10619.9 Sq. ft. = 986.62 Sq. m.	Keshab Chandra Basu for Sri Sri Radha Gobinda Jew Thakur.	South DAG No. : 1615	
				1560 (Part)	0.00395 Acre = 172.22 Sq. ft. = 16 Sq. m.	Debendra Nath Biswas, Dinendra Nath Biswas, Dwarik Nath Biswas, Sudha Rani Biswas, Amiya Nath Biswas, Surama Biswas, Pratima Some, Kamal Kumari Basu,	East DAG No. 1564	
				TOTAL AREA	1.03835 Acre = 4202.06 Sq.m.	Malina Basu, Bimala Basu, Uma Rani Ghosh, Debendra Ch. Ghosh, Roy Horendra Nath, Roy Bahadur, Amal Nath Biswas, Ananta Nath Biswas, Gonesh Ch. Mitra, Amarendra Prasad Biswas, Biraja Kumar Basu, Gouri Charan Biswas, Atandra Nath Mitra.	West DAG No. : 1562	

[F.No. 2-43/2001-M]

R. C. MISRA, Addl. Director General & Jt. Secy.